

बोर्ड- 2018-19

कक्षा-12

विषय- व्यापारिक संगठन एवं

पत्र-व्यवहार

पूर्णांक-100

समय - 3 घण्टे

बहुविकल्पीय प्रश्न

(10X1=10)

- वाहन विज्ञापन का अर्थ है-
(क) इश्तहार (ख) रोजनामचा
(ग) समाचार-पत्र (घ) इनमें से कोई नहीं।
- "कोई भी संख्या बिना प्रभावी प्रबन्ध के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकती।" यह कौन है-
(क) जॉर्ज आर0 टेरी (ख) हरबर्ट एन0 बेसन
(ग) डूकर (घ) ओल्डर शेल्डन का
- प्रबन्धक पद पर किसको नियुक्त किया जाता है?
(क) व्यक्ति (ख) साझेदारी-फर्म को
(ग) कम्पनी को (घ) इन सभी को
- व्यापारिक कार्यालय का विभाग है-
(क) लेखा-विभाग (ख) रोकड़ विभाग
(ग) पत्र-व्यवहार विभाग (घ) ये सभी
- तकादे के पत्रों की संख्या सामान्यतः होती है-
(क) दो या तीन (ख) तीन या चार
(ग) चार या पांच (घ) सात
- निम्न में से सरकारी पत्र का गुण नहीं है।
(क) स्पष्टता (ख) संक्षिप्तता
(ग) वैयक्तिकता (घ) पूर्णता
- जनसाधारण के सूचनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है।
(क) परिपत्र (ख) अधिसूचना
(ग) ज्ञापन (घ) घोषणा

- समाचार पत्रों में किस प्रकार की सूचनाएँ दी जाती हैं?
(क) सरकारी कार्यवाही में विलम्ब की। (ख) भ्रष्टाचार की
(ग) सार्वजनिक सूचना की। (घ) इन सभी की।
- खुली अनुक्रमाणिका में कितने कार्डों को देखा जा सकता है?
(क) दो (ख) पाँच
(ग) अनेक (घ) सभी कार्डों को।
- नस्तीकरण के कार्य हैं।
(क) आने वाले पत्रों की संख्या को (ख) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को
(ग) सुरक्षा को (घ) इन सभी को।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

10X2=20

- साधारण या खुले विदेशी-विपत्र होता है?
- नियोजन की परिभाषा दीजिए।
- व्यावसायिक कार्यालय के विभाजन के चार लाभ लिखिए।
- एजेन्सी के लिए प्रार्थना-पत्र में किन बातों का उल्लेख किया जाता है?
- बैंक से पत्र व्यवहार करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियाँ लिखिए। <http://www.upboardonline.com>
- फोल्डर के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए।
- तकादे का पत्र लिखते समय सावधानियों का वर्णन कीजिए।
- गोदी (डाक) चालान क्या होता है?
- दर्शनी बिल क्या है? यह कब भरा जाता है।
- आदेश पत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

6X5=30

- आधुनिक युग में प्रबन्ध के महत्व के चार कारण बताइये।
- प्रबन्धक के अधिकारों व दायित्वों का वर्णन कीजिए।
- ज्ञापन क्या है? यह किन दशाओं में लिखा जाता है?
- एक अच्छे परिपत्र में कौन-कौन से गुण होने चाहिए?
- आयात लाइसेन्स प्राप्त करने की विधि का वर्णन-कीजिए।
- शिकायती पत्र क्या होता है? यह किन स्थितियों में लिखा जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4X10=40

27. विदेश से माल आयात करने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए।

अथवा

प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्य बताइये।

28. व्यापारिक पत्र क्या है? एक अच्छे व्यापारिक पत्र की विशेषतायें बताइये तथा आदेश पत्र का नमूना दीजिए।

अथवा

सर्वश्री किशोर बुक सेलर्स बरेली से जो माल प्राप्त हुआ है, वह आपके ऑर्डर के अनुसार नहीं है। ऐसी गलती इससे पूर्ण भी कई बार हो चुकी है। उन्हें एक शिकायती पत्र लिखिए।

29. देश के आर्थिक विकास के लिए श्रेष्ठ प्रबन्ध आवश्यक हैं।'' समझाइये।

(अथवा)

अभिप्रेरणा के आशय एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

30. कप्तान की रसीद तथा जहाजी बिल्टी में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(अथवा)

सर्वश्री नानक ब्रदर्स, कानपुर ने राम एण्ड संस, झाँसी की ओर से निम्न

माल बेचा-

150 बनारसी साड़ियाँ	200रु0 प्रति साड़ी
200 जोड़े धोती	90रु0 प्रति जोड़ी
200 मीटर सिल्क	30रु0 प्रति मीटर
120 चादरें	25रु0 प्रति चादर

निम्न व्यय किए गए-

रेल भाड़ा	90रु0
ढेला भाड़ा	45रु0
किराया	100रु0
बीमा	300रु0

उन्हें 10% विक्रय पर कमीशन मिलता है। निर्धारित सूचनाओं से विक्रय विवरण बनाइए।